

**नगर पंचायत नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.11.2020 से 31.03.2023**

भाग एक

1 (क) प्रारम्भिक :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन (एल०ए०)- खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत नेरवा के लेखों अवधि 1.11.2020 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत नेरवा में निम्नलिखित बतौर अध्यक्ष एवं सचिव के पद पर कार्यरत रहे:-

(i) अध्यक्ष :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	पद रिक्त	01.11.2020 से 17.01.2021
2	श्रीमती बबीता तंगडाईक	18.1.2021 से 31.03.2023

(ii) सचिव एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी :-

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	अवधि
1	श्री नरेंद्र कुमार चौहान (उप-मण्डलाधिकारी -सी०, चोपाल अतिरिक्त कार्यभार)	1.11.2020 से 19.05.2021
2	श्रीमती विनय कुमार शर्मा (नायब तहसीलदार नेरवा अतिरिक्त कार्यभार)	20.05.2021 से 28.02.2022
3	श्री अरुण शर्मा (तहसीलदार नेरवा अतिरिक्त कार्यभार)	1.3.2022 से 20.06.2022

4	पद रिक्त	21.6.2022 से 23.06.2022
5	श्री अनिल चौहान (सचिव नगर पंचायत नेरवा अतिरिक्त कार्यभार)	24.6.2022 से 28.02.2023
6	श्री जगपाल सिंह (तहसीलदार नेरवा अतिरिक्त कार्यभार)	1.3.2023 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार: -

नगर पंचायत नेरवा, जिला शिमला के लेखों अवधि 01.11.20 से 31.03.23 तक के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	अनुदानों की शेष राशि का उपयोग न करना	7(क)	229.41
2	अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करना	7(ख)	75.19
3	नगर पंचायत भवन के रख रखाव हेतु अनियमित व्यय करना।	20	4.43
4	स्ट्रीट लाइट्स की खरीद तथा स्थापना हेतु अनियमित रूप से भुगतान करना।	21	1.57
		26	3.56
5	प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत अनियमित भुगतान	27	9.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

नगर पंचायत नेरवा, जिला शिमला (हि०प्र०) द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व अभिलेख अनुसार, सचिव, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या:UD-A(1)-4/2015 दिनांक 28.10.2020 द्वारा नगर पंचायत नेरवा, जिला शिमला, हि०प्र० को अधिसूचित किया गया तथा हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नगर पंचायत नेरवा, जिला शिमला (हि०प्र०) का प्रथम अंकेक्षण निष्पादित किया गया।

भाग-दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण:-**

नगर पंचायत नेरवा के लेखों अवधि 01.11.2020 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण कार्य श्री कविन्द्र कंवर, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) व श्री तरुण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अवधि 05.02.2024 से 12.03.2024 तक के दौरान नगर पंचायत कार्यालय नेरवा में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
11/2020 से 3/2021	-	-
4/2021 से 3/2022	2/2022	2/2022
4/2022 से 3/2023	3/2023	4/2022

अस्वीकरण (Disclaimer) :- प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव नगर पंचायत नेरवा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क**

नगर पंचायत नेरवा के लेखों अवधि 01.11.20 से 31.03.23 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹30200/- आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -9 को भेजने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या-15 दिनांक 12.03.2024 द्वारा वर्तमान सचिव, नगर पंचायत से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से जमा करवाने बारे अनुरोध किया गया था।

4. **वित्तीय विवरणियां :-**

नगर पंचायत अधिनियम, 1994 व नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार, नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक हैं। अतः

अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या- KK/SO/2023 Vol.I-26 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था:-

क्रम	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	तुलन पत्र (Balance Sheet)	प्रस्तुत की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत की गई
4	प्राप्ति एवम भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	प्रस्तुत की गई
5	लेखाओं पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत नहीं की गई
6	वित्तीय प्रदर्शक सूचक (Financial Performance Indicator)	प्रस्तुत नहीं की गई

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार तलपट (Trial Balance) तथा खाताबहीयों (Ledgers) का उचित रखरखाव/रख रखाव नहीं करने के कारण (Improper/Non maintenance of ledger accounts) तुलन पत्र में Fixed Assets, Current Assets, Sundry debtors/creditor, Loans and advances, Grant in Aid इत्यादि की सही स्थिति परिलक्षित नहीं हो रही थी अथवा परिलक्षित ही नहीं हो रही थी। (Balance sheet was not showing the true and fair picture of the Accounts of NP) जिस कारण लेखों को तैयार करने का उद्देश्य फलीभूत नहीं हो रहा था जिस कारण लेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका, केवल रोकड़ बही का सत्यापन अंकेक्षण दल द्वारा किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि यथाशीघ्र नियमानुसार लेखों का संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 वित्तीय स्थिति: -

(क) नगर पंचायत नेरवा द्वारा यथा परिशिष्ट-‘क’ पर प्रस्तुत सूचनानुसार नगर पंचायत की विभिन्न निधियों की लेखा अवधि 01.11.20 से 31.03.23 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

Financial Position of Nagar Panchyat Nerwa							
YEAR	Name of Head	Opening Balance	Receipts	Interest Received	Total	Expenditure	Closing Balance
2020-21	Own Sources	0	0	0	0	0	0
	Grants-in-aid	0	3891034	14572	3905606	0	3905606
	Total	0	3891034	14572	3905606	0	3905606
2021-22	Own Sources	0	121475	0	121475	71120	50355
	Grants-in-aid	3905606	11776700	109609	15791915	2028746	13763169
	Total	3905606	11898175	109609	15913390	2099866	13813524
2022-23	Own Sources	50355	613273	0	663628	535103	128525
	Grants-in-aid	13763169	15829113	370065	29962347	6526664	23435683
	Total	13813524	16442386	370065	30625975	7061767	23564208

(ख) बैंक समाधान विवरणी (Bank Reconciliation Statement):-

Bank Reconciliation Statement	
Total as per Financial Position as on 31.03.2023	23564208
Add: Payments made but not debited by bank till 31.03.2023 from Bank A/c No. 5398 (Detail Given Below)	
Payment to Sh. Jagmohan Bhaik Sanitation Contactor (CBP-27)	20000
Payment to Sh. Chand Ram (Security Money) (CBP-27)	5320
Sh. Rohit Sood (Security Money) & Payment to Sh. Ramesh Kumar Ranaik (₹5782+₹5060) (CBP-27)	10842
Payment to Various Contractors (Earnst Money) (CBP-27)	137293
Payment of Honorarium to Nagar Panchay Members (CBP-27)	53000
Add: Interest Recvieved as per Bank Statement on 31/03/2023 but as per Passbook & Cashook on 01/04/2023	
40510116042	5903
40510115413	14550
42710124719	5894
42710124930	86500
40510115356	123864
45010115398	42834
Less: Cash in Hand	50
Less: Balance of PMAY SNA Nodal Account	29900
Total	2404025

Total as per Bank Accounts as on 31.03. 2023 (Detail Given Below)	
HPSCB, Nerwa A/c No.- 40510116042	3083848
HPSCB, Nerwa A/c No.- 40510115413	1056714
HPSCB, Nerwa A/c No.- 42710124719	617237
HPSCB, Nerwa A/c No.- 42710124930	6468884
HPSCB, Chopal A/c No.- 40510115356	10237213
HPSCB, Chopal A/c No.- 45010115398	2576362
Total Balance as per Bank	24040258

(ग) दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करना:-

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं. UD -H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 Dt. 25.03.2009, UD -H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 Dt. 07.09.2009, और पत्र सं UD-H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 Dt. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लेखा खातों को नगर पंचायत द्वारा उक्त आधार पर तैयार नहीं किया गया था, इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में तलपट(Trial Balance), खाताबही (Ledger) तैयार नहीं किये गये थे, जिस कारण संस्था के लेखा खातों का तलपट(Trial Balance) व तुलन पत्र (Balance Sheet) के आधार पर सत्यापन नहीं किया जा सका। संस्था द्वारा अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिए गया है। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 6.03.24 द्वारा सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, अंकेक्षण की समाप्ति तक सचिव नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखापद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाये जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. (क) सावधि जमा निवेश :-

अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के दौरान नगर पंचायत द्वारा सामान्य निधि तथा अनुदानों में से किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में सचिव नगर पंचायत नेरवा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या- KK/SO/2023 Vol.I-26 दिनांक 23.01.2024 के प्रतियूत्तर में प्रस्तुत की गई सुचना में दिया गया है।

7. अनुदान :-

सचिव नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध करवाए गए विवरण का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई:-

(क) दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹229.41 लाख उपयोग हेतु शेष :-

नगर पंचायत नेरवा द्वारा यथा परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2023 को ₹22941437 (₹ 23435683-ब्याज ₹ 494246) व्यय हेतु शेष थे। जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अनुदान हेतु शेष राशियों के उपयोग न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना सं० KK/SO/2023-Vol.I-26 दिनांक 23.01.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत नेरवा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, नगर पंचायत नेरवा के द्वारा आश्वासन दिया गया कि अनुदानों की शेष बची राशि का उपयोग शीघ्र अति शीघ्र कर ली जाएगी। अतः अनुपयोग अनुदान राशियाँ को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹75.19 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट "ख" के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹2028746 व 2022-23 में ₹6526664 कुल ₹8555410 का व्यय किया गया दर्शाया गया है। लेकिन अनुदान की राशि जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा व्यय की गई है, की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर पंचायत द्वारा न तो अद्यतन अनुदान रजिस्टर को व न ही अनुदानों के ₹7519410 (8555410-10,36,000) व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 11.03.24 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत नेरवा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र सं० : शून्य दिनांक: मार्च 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः प्रतियुत्तर अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/ दिनांक, बिल / वाऊचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों सहित सत्यापना हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 11/2023 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात् इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में पूर्णतः सत्यापना नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 11.03.24 के प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र सं० : शून्य दिनांक: मार्च 2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः भविष्य में अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. प्राप्त आय को बैंक में देरी से जमा करवाए जाने बारे:-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत आय हेतु चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत के सामान्य रोकड बही व रसीदों के माध्यम से प्राप्त आय की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्राप्त आय की राशि को एक लंबे अंतराल के बाद बैंक खाते में जमा करवाया गया था जोकि एक अस्थायी दुर्विनियोजन का मामला है, क्योंकि हि. प्र. म्युनिसिपल लेखा संहिता के नियम-38 के अनुसार, प्राप्त आय की राशि को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वः स्त्रातों से प्राप्ति की रसीदों पर गणना का प्रमाण पत्र भी अंकित नहीं किया जा रहा था।

क्रम संख्या	रसीद संख्या	विवरण	प्राप्त राशी (₹)	प्राप्ति की दिनांक	जमा करने की दिनांक
1	1	श्री पदम् चौहान से NOC फीस प्राप्ति	500	08/12/2021	18/02/2022
2	2	श्री रविंदर चौहान से NOC फीस प्राप्ति	500	08/12/2021	18/02/2022
3	3	श्री धनि राम से NOC फीस प्राप्ति	500	08/12/2021	18/02/2022
4	4	श्री गोविन्द कमनैक से NOC फीस प्राप्ति	500	08/12/2021	18/02/2022

5	5	श्री रंधीर राठौर से NOC फीस प्राप्ति	500	08/12/2021	18/02/2022
6	6	श्री कार्तिक तन्त्रैक से NOC फीस प्राप्ति	500	08/12/2021	18/02/2022
		कुल प्राप्ति राशी	3000		

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 2023-24-न०प०नेरवा-05-01 दिनांक:06.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, अंकेक्षण की समाप्ति तक सचिव नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्राप्त आय को एक लंबे अंतराल के बाद बैंक खाते में जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व एवम भविष्य में प्राप्त आय को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 गृहकर के निर्धारण बारे:-

सचिव, शहरी विकास हि०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या: UD-A(1)-4/2015 दिनांक 28.10.2020 द्वारा नगर पंचायत नेरवा, जिला शिमला हि०प्र० को अधिसूचित किया गया था जिस कारण नगर पंचायत नेरवा का परिक्षेत्र दिनांक 27.10.2023 तक सामान्य कर (General Tax) से मुक्त था तथा दिनांक 31.03.2023 तक गृहकर की कोई भी राशि वसूली हेतु लम्बित नहीं थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या- KK/SO/2023 Vol.I-26 दिनांक 23.01.2024 द्वारा गृहकर के निर्धारण बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था जिस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का संतोषजनक उत्तर नगर पंचायत से प्राप्त नहीं किया गया चूँकि नगर पंचायत नेरवा का परिक्षेत्र दिनांक 27.10.2023 तक गृहकर से करमुक्त था किन्तु वर्णित दिनांक तक नगर पंचायत द्वारा गृहकर दाताओं का सर्वेक्षण व गृह कर दरों का निर्धारण भी नहीं किया गया था, जिस कारण नगर पंचायत को इस तिथि के पश्चात गृह के रूप में प्राप्त हो सकने वाली आय की अनुवर्ती हानि हो रही है। अतः वर्णित तिथि तक गृहकर के निर्धारण के सम्बन्ध में सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण की ओर से परामर्श दिया जाता है कि अभिलम्ब गृहकर के निर्धारण हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जानी सुनिश्चित की जाए ताकि नगर पंचायत की आय में बढ़ोतरी हो सके एवम कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. बजट को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही नगर पंचायत निधि से ₹85.55 लाख का व्यय करना:-

हि०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1994 की धारा 249 के प्रावधानानुसार, नगर पंचायत को प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्राकलन तैयार करके उसको सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाना अपेक्षित है। अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 का वार्षिक बजट न ही बनाया गया और न ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरण अनुसार कुल ₹8555410 का व्यय बिना बजट अनुमोदन के किया गया था:-

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय की गई राशि (₹)
2020-21	-
2021-22	2028746
2022-23	6526664
कुल व्यय	8555410

इस संबंध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 12 दिनांक 11.03.24 द्वारा सचिव, नगर पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत से आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र सं० : शून्य दिनांक: मार्च 2024 द्वारा संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं किया गया। अतः बिना बजट अनुमोदन के किये गये व्यय का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा किये गये व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में बजट प्राकलन तैयार करके उसको सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाकर ही व्यय नियमानुसार अनुमानित बजट प्रावधान अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. शराब व बिजली उपकर:-

(क) आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से शराब उप-कर की राशि को प्राप्त न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी.-एच(सी)(9)-28/96-1, दिनांक 01.12.99 के अनुसार, नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों में बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब उप-कर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संबन्धित स्थानीय निकायों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के दौरान नगर पंचायत को आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से शराब उप-कर के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में मामला

आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला, हि. प्र. से उठाया जाए एवम वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में नगर पंचायत क्षेत्र में शराब की बोतलों की बिक्री के पूर्ण विवरण सहित शराब उप-कर की बकाया राशि आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि.प्र. बिजली बोर्ड से बिजली उप-कर की राशि को प्राप्त न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी.-(डी)(1)-9/94, दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा-69 के अनुसार, नगर पंचायत द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट ₹1.00 पैसा की दर से बिजली उप-कर हि.प्र. बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के दौरान नगर पंचायत को हि.प्र. बिजली बोर्ड से बिजली उप-कर के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में मामला हि.प्र. बिजली बोर्ड से उठाया जाए एवम वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में नगर पंचायत परिक्षेत्र में प्रति यूनिट खर्च हुई बिजली के पूर्ण विवरण सहित बिजली उप-कर की बकाया राशि हि.प्र. बिजली बोर्ड से प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. मोबाईल टावर शुल्क:-

अंकेक्षण को परिशिष्ट-"ग" पर उपलब्ध करवाए गये प्रमाण पत्र अनुसार नगर पंचायत द्वारा अधिकृत जमीन पर कोई भी मोबाइल टावर स्थापित नहीं है।

13. संस्थापना:-

(क) श्री सुरेश कुमार, JOA (IT) को अनुबंध आधार नियुक्त संबंधी अभिलेखों अंकेक्षण को नहीं करना:-

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के लेखों के अंतर्गत व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि नगर पंचायत द्वारा श्री सुरेश कुमार, JOA (IT) को अनुबंध आधार नियुक्त किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

नाम/पदनाम	:	श्री सुरेश कुमार, JOA (IT) अनुबंध आधार
नियुक्ति पत्र सं.	:	सं. UD-H(B)(2)-5/2003-I-4162 दिनांक 14-03-2022
कार्यग्रहण तिथि	:	11-07-2022
पे-बैंड	:	₹ 5910-20200 + ₹ 1900 GP

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निदेशक, शहरी विकास हि.प्र. द्वारा जारी उक्त नियुक्ति पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट औपचारिकताएँ अथवा अभिलेख प्राप्त/पूर्ण किये बिना ही श्री सुरेश कुमार, JOA (IT) की कार्यग्रहण दिनांक 11-07-2022 स्वीकार कर लिया गया था। श्री सुरेश कुमार, JOA (IT) तथा सचिव, नगर पंचायत के मध्य कार्यग्रहण तिथि 11-07-2022 से वर्तमान तक का वर्षवार अनुबंध/करार को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा वेतन रजिस्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधी इत्यादि अभिलेखों का भी रख-रखाव नहीं किया जा रहा था इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 11.03.24 द्वारा सचिव, नगर पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र सं० शून्य दिनांक मार्च 2024 में सूचित किया गया कि भविष्य में व्यक्तिगत नस्ति तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायगी। अतः उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में पूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता आउटसोर्स आधार के नियुक्ति बारे-

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के लेखों के अंतर्गत व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि नगर पंचायत द्वारा श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता को निदेशक, शहरी विकास हि.प्र. के द्वारा जारी अनुशंसा सूची के आधार M/s. V Eagle Security Service, Lakkar Bazaar, Shimla-01 के माध्यम से नियुक्त किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति/कार्यग्रहण तिथि	एजेंसी का नाम	नियुक्ति/ऑफर लैटर स.	नियुक्ति की तिथि से 31.3.2023 तक किया गया भुगतान
श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता	25-03-2022	M/s. V Eagle Security Service, Lakkar Bazaar, Shimla-01 (H.P.)	VESS/2021-22 दिनांक 24-03-2022	₹ 202886/-

अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत द्वारा श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता (आउटसोर्स आधार) के नियुक्ति तथा वेतन निर्धारण संबंधी औपचारिकताओं को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था, इस प्रकार उनके नियुक्ति तथा वेतन निर्धारण संबंधी औपचारिकताओं का सत्यापन नहीं किया जा सका। इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 11.03.24 द्वारा सचिव, नगर पंचायत

को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र सं० शून्य दिनांक मार्च 2024 में सूचित किया गया कि भविष्य में व्यक्तिगत नस्ति तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायगी, अतः उक्त अनियमितताओं बारे सुझाव दिया जाता है कि श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता (आउटसोर्स आधार) के नियुक्ति तथा वेतन निर्धारण संबंधी पूर्ण अभिलेखों का संधारण किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता (आउटसोर्स आधार) के ₹ 2.02 लाख के वेतन भुगतान संबंधी बिलों को अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं करना:-

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के लेखों के अंतर्गत व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि नगर पंचायत द्वारा M/s. V Eagle Security Service, Lakkar Bazaar, Shimla-01 (H.P.) को ₹ 202886/- श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता के वेतन के रूप में भुगतान किया गया था जो कि श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता के नियुक्ति की तिथि से 31.3.2023 तक किया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा M/s. V Eagle Security Service, Lakkar Bazaar, Shimla-01 (H.P.) को किये गए भुगतान से संबंधित बिलों, वेतन रजिस्टर इत्यादि को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस से श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता को किये गए वेतन के भुगतान की सत्यापना संभव नहीं हो सकी। नगर पंचायत द्वारा किये गए भुगतान का विवरण निम्नप्रकार से है -

RTGS/NEFT No./Date	Letter	Voucher No./Date Payment	Cash Book Page No.	Name of Agency	Paid Amount
No.NP-CPL- ACC(Voucher) 2023- 41/8-2-2023		2/2/8-2- 2023	22	M/s. V Eagle Security Service, Lakkar Bazaar, Shimla-01	₹202886

इस संबंध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 11.03.24 द्वारा सचिव, नगर पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस संबंध में किसी भी प्रकार प्रत्युत्तर अंकेक्षण को प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत श्री नरेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता (आउटसोर्स आधार) को भुगतान किये गए वेतन के बिलों

तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण किये जाये तथा तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising and Visual Publication-DAVP) द्वारा पालिसी में प्रावधित 15 % की छुट का समाचार पत्रों से दावा न किये जाने के कारण टेंडर व अन्य प्रकाशनों पर ₹ 2563/- की राशि का अधिक भुगतान:-

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising and Visual Publication-DAVP) द्वारा सरकारी विभागों व उपक्रमों द्वारा समाचार पत्रों में छपवाए जाने वाले विज्ञापनों के सन्दर्भ तथा उसके लिए भुगतान किये जाने वाले मूल्य के सम्बन्ध में एक पालिसी जारी की है जिसके प्रावधानों के अनुसार यदि विज्ञापन निदेशालय के जरिये छपवाया जाये तो उसकी लागत पर समाचार पत्र द्वारा 15 % छुट दी जानी अपेक्षित है। उदाहरन के लिए "दिव्य हिमाचल" के पक्ष में निम्न तालिका के क्रमांक 1 पर वर्णित वाउचर 8 के साथ सलग्न डी.ए.वी.पी. द्वारा जारी रेट कॉन्ट्रैक्ट क्रमांक 12673 में सामान्य विज्ञापन दर ₹ 24.03/- तथा 15% छुट उपरांत ₹20.40/- मंजूर की है। चूँकि नगर पंचायत द्वारा विज्ञापनों का प्रकाशन अपने ही स्तर पर सीधे समाचार पत्रों से करवाया गया है जिस कारण उपरोक्त छुट समाचार पत्रों द्वारा नहीं दी गई है। हालाँकि नगर पंचायत सीधे विज्ञापन प्रकाशित करवाने में सक्षम तदापि एक सरकारी विभाग/उपक्रम होने के नाते उक्त छुट के लिए समाचार पत्रों से मोलभाव किये जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया इस कारण नगर पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार विज्ञापनों हेतु भुगतान अनुबंधित दरो की तुलना में अधिक दरों से करने के कारण ₹ 2563/- का अधिक भुगतान किया गया। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 11.03.24 के प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र सं० : शून्य दिनांक: मार्च 2024 द्वारा इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है परन्तु नगर पंचायत द्वारा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जाये अथवा अनुचित किये गए भुगतान की राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Detail of Expenditure incurred on Advertisements					
1	Voucher no /Date	C.B. Page No.	Amount (₹)	15% Discount (₹)	To Whom Paid	Purpose
2	8/2 13.02.2023	23	8093	1214	Divya Himachal Prakashan Pvt. Ltd.	Publication of Tender
3	13/03 15.03.2023	25	8992	1349	---do---	---do---
Total				2563		

15. यात्रा भत्ते ₹6583/- का अनुचित भुगतान:-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित माह 04/2022 के अंकेक्षण के दौरान यात्रा भत्ते दावों से संबंधित भुगतान किये गये बिलों की नमूना जाँच पर पाया गया कि निम्न सारणी में दिए गये विवरण अनुसार ₹ 6583/- का अनुचित भुगतान किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6-4/74-वित्त (विनियम), दिनांक 25.4.1975 जिसे कार्यालय ज्ञापन संख्या वित्त (सी बी (7)-14/98, दिनांक 8.12.1998 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार "When an officer/employee returns to headquarters on the same day, he will draw Daily Allowance at journey time trades irrespective of the fact that the journey was performed to an expensive locality." परन्तु उपरोक्त प्रावधान की अवहेलना करके परिशिष्ट "घ" पर दिए गए मामलों में यात्रा के स्थान पर ठहराव की दर से दैनिक भत्तों का भुगतान कर दिया गया जो कि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अध्याचना संख्या 11 दिनांक 6.03.24 द्वारा उक्त अनियमितता के संदर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस संबंध में किसी भी प्रकार प्रत्युत्तर अंकेक्षण को प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत वर्णित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण अवगत करवाया जाए।

16. I.T Academics (P) Ltd., लखनऊ को ₹.34 लाख का अनियमित भुगतान: -

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित माह 02/2022 में I.T Academics (P) Ltd., लखनऊ को ₹34220 का निम्नविवरणानुसार नगर पंचायत की Website के रखरखाव हेतु भुगतान किया गया था जिस सम्बन्ध में अंकेक्षण द्वारा सचिव, नगर पंचायत द्वारा किये गए भुगतान संबंधी अभिलेख तथा AMC (Annual Maintenance Charges) रजिस्टर को पूर्ण अभिलेख सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 2023-24-न०प०नेरवा-05-01 दिनांक: 06.03.2024 द्वारा किया गया था परन्तु सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अतः उक्त अनियमितताओं

बारे पूर्ण दस्तवेजों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

• वाउचर सं०/ दिनांक- अंकित नहीं • रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 07 • कार्य- Payment to I.T Academics, Lucknow for payment of AMC of Website. • RTGS सं०/दिनांक- No. NP-Nerwa-95/01-02-022 • कार्य आदेश सं०/दिनांक- No.NP/Nerwa (Estt.)2021-08-09/11-01-22 • भुगतान राशि- ₹34220	
बिल सं०/दिनांक	राशि (₹)
ITACAD/21-22/57/24-01-22	29000+18% GST= 34220

17. मै० आलम टेंडर बेलदार, नेरवा को ₹0.34 लाख का अनियमित भुगतान: -

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित माह 02/2022 में M/s Alam Tender Beldar, Nerwa को ₹33889 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

• वाउचर सं०/ दिनांक- अंकित नहीं • रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 08 • कार्य- Payment to M/s Alam Tender Beldar, Nerwa. • RTGS सं०/दिनांक- No. NP/Nerwa-Acc(RTGS)2021-189/24-02-22 • कार्य आदेश सं०/दिनांक- वाउचर के साथ संलग्न नहीं • भुगतान राशी- ₹33889				
बिल सं०/दिनांक	मद/सामग्री	मद/सामग्री की मात्रा	मद/सामग्री की दर	राशि (₹)
451/ 10-02-22	Providing Grill + Net	220 K.G	₹115/ KG	25300
	Fixing Grill + Net		₹10000	10000
			कुल	35300
			+ 18% GST	6345
			कुल	41654
450/ 10-02-22	Providing Steel Angle + Net	235 K.G	₹115/ KG	27025
			+ 18% GST	4864
			कुल	31889
	Concrete Lifting & Providing		₹2000	2000
			कुल	33889

उक्त भुगतान की पड़ताल पर निम्न अनियमितताएं पाई गई:-

- i. अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि इस कार्य हेतु न तो आकलन तैयार किया गया था और न ही कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया गया था, जिस कारण किये गये भुगतान को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।
- ii. अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त भुगतान से सम्बंधित निविदा संबंधी औपचारिकताएं को पूर्ण किये बिना ही कार्य किया गया था जिस से प्रतीत होता है कि M/s Alam Tender Beldar, Nerwa. को अनुचित लाभ पहुंचने का प्रयास किया गया था।
- iii. बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा ₹11209 (6345 + 4864) की राशि को GST के रूप में बिल पर अलग से प्रभारित किया गया था हालाँकि आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किये गए बिल पर किसी भी प्रकार का GST नम्बर नहीं दर्शाया गया था। अतः इस प्रकार से किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 2023-24-न०प०-01-05 दिनांक 06.03.2024 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में सचिव, नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः पाई गई अनियमितताओं बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त उक्त वर्णित अभिलेखों के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा GST के रूप में बिल पर अलग से प्रभारित राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. मै० अली एजेंसीज को ₹4.43 लाख भुगतान के सन्दर्भ में पाई गई अनियमितता बारे:-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित माह 02/2022 में M/s Ali Agencies, Nerwa को नगर पंचायत भवन के रख रखाव हेतु ₹443476/- का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नप्रकार से है :-

- वाउचर सं०/ दिनांक- अंकित नहीं
- रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 08
- कार्य- Payment to Ali Agencies, Nerwa

- RTGS सं०/दिनांक- No. NP/Nerwa-Acc(RTGS)2021-189/24-02-22 - कार्य आदेश सं०/दिनांक- वाउचर के साथ संलग्न नहीं - भुगतान राशी- ₹443476				
बिल सं०/दिनांक	मद/सामग्री	मद/सामग्री की मात्रा	मद/सामग्री की दर	राशि
033/ 10-02-22	Brick Work	1.6	237	379
	Wood Work	0.91	80338	73107
	12 mm Thick Pannel	104	457	47528
	18 mm Thick Pannel	34	677	23018
	Ceiling Pannel	138	1525	210450
	Meeting Table	1	21186	21186
	योग			375668
	+ 18% GST			67620
	+ Labour			188
	कुल योग			443476

उक्त भुगतान की पड़ताल पर निम्न अनियमितताएं पाई गई:-

- अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि इस कार्य हेतु न तो प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई थी, न ही प्राक्कलन को सक्षम तकनीकी प्रधाकारी द्वारा हस्ताक्षरित करवाया गया था और न ही कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया गया था, जिस कारण किये गये भुगतान को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 101 के अनुसार एक लाख रूपए से अधिक की राशि के सामान का क्रय टेंडर आमंत्रित करके किया जाना अनिवार्य था वर्णित खरीद कुटेशन के आधार पर की गई थी जिसे से प्रतीत होता है कि फर्म को अनुचित लाभ देने के लिए उक्त प्रक्रिया की अवेहलना की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।
- अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त भुगतान से सम्बंधित निविदा संबंधी औपचारिकताएं को भी उचित प्रकार से संपन्न नहीं की गया था। निविदाओं के साथ Sealed

Cover Envelope संलग्न नहीं पाए गए थे तुलनात्मक विवरणी ,को भी तैयार नहीं किया गया था तथा न ही निविदाओं पर खरीद समिति के हस्ताक्षर मौजूद पाए गए थे। नगर पंचायत द्वारा निविदा संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना ही कार्य किया गया था जिस से प्रतीत होता है कि M/s. Ali Agencies, Nerwa को अनुचित लाभ पहुंचने का प्रयास किया गया था।

- iv. अभिलेखों के पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार नगर पंचायत द्वारा उक्त बिल में संविधानिक कटौतियां नहीं की गयी थी -

बिल की राशी	प्रतिभूति राशी (10%) (₹)	लेबर उपकार (1%) (₹)	आयकर (1%) (₹)	सी०जी० एस०टी (1%) (₹)	एस०जी० एस०टी (1%) (₹)	कुल (₹)
375668	37567	3757	3757	3757	3757	52595

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 2023-24-न०प०नेरवा-05-01 दिनांक: 06.03.2024 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः पाई गयी अनियमितताओं बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत उक्त वर्णित अभिलेखों के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये तथा संविधानिक कटौतियां की वसूली उचित स्रोत से करके सरकारी खजाने में जमा करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19. मै० खंडाला इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नेरवा को ₹1.57 लाख भुगतान के सन्दर्भ में पाई गई अनियमितता बारे -

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित माह 02/2022 में M/s Khandala Electrical & Electronics, Nerwa को स्ट्रीट लाइट्स की खरीद तथा स्थापना हेतु ₹157400/- का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नप्रकार से है :-

- वाउचर सं०/ दिनांक- अंकित नहीं
- रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 08
- कार्य- Payment Khandala Electrical & Electronics, Nerwa

- RTGS सं०/दिनांक- No. NP/Nerwa-Acc(RTGS)2021-189/24-02-22 - कार्य आदेश सं०/दिनांक- वाउचर के साथ संलग्न नहीं - भुगतान राशी- ₹157400				
बिल सं०/दिनांक	मद/सामग्री	मद/सामग्री की मात्रा	मद/सामग्री की दर (₹)	राशि (₹)
01/ 20-02-22	Street Light 80 W	8	2500	20000
	Street Light 45 W	8	3050	24400
	Service Wire 10 mm	8	11250	90000
	Street Light Pipe	20	400	8000
	Installation Charges		15000	15000
	कुल			157400

स्ट्रीट लाइट्स की खरीद व स्थापना के संदर्भ में निम्न अनियमितताएं पाई गई:-

- अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि कार्य के मूल्यांकन माप पुस्तिका में दर्ज किया गया था तथा सामग्री जारी करने संबंधी कोई प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में दर्ज नहीं पाई गई थी, जिस कारण किये गये भुगतान को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 101 के अनुसार एक लाख रूपए से अधिक की राशि के सामान का क्रय टेंडर आमंत्रित करके किया जाना अनिवार्य था वर्णित खरीद कुटेशन के आधार पर की गई थी, जिससे प्रतीत होता है कि फर्म को अनुचित लाभ देने के लिए उक्त प्रक्रिया की अवहेलना की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।
- अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त भुगतान से सम्बंधित निविदा संबंधी औपचारिकताएं को भी उचित प्रकार से संपन्न नहीं की गया था। निविदाओं के साथ लिफाफे संलग्न नहीं पाए गए थे, तुलनात्मक विवरणी को भी तैयार नहीं किया गया था तथा न ही निविदाओं पर खरीद समिति के हस्ताक्षर मौजूद थे तथा खंडाला इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नेरवा द्वारा प्रस्तुत निविदा में इंस्टालेशन चार्जेज की राशि अंकित नहीं पाई गयी थी।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 2023-24-न०प०नेरवा-05-01 दिनांक: 06.03.2024 द्वारा उक्त अनियमितता के संदर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का

प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः पाई गयी अनियमितताओं बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत उक्त वर्णित अभिलेखों के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये तथा सम्बंधित अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना नगर पंचायत निधि से ₹0.31 लाख की राशि का अनियमित क्रय: -

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 98 के अनुसार ₹ 3000/- से अधिक मूल्य के क्रय हेतु कोई निविदा/कोटेशन इत्यादि खुले बाज़ार से आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि निम्न तालिका उल्लेखित सामान की आपूर्ति निविदाओं के आधार पर नहीं की गयी थी, अभिलेख में तीन निविदाएँ सलग्न नहीं पाई गई थी, निविदा आमंत्रण पत्र, निविदाएँ कब प्राप्त की गई, तुलनात्मक विवरण व किस फर्म को आपूर्ति आदेश भेजा गया, से सम्बन्धित अभिलेख वाउचर फाइल में मौजूद नहीं थे। उक्त अभिलेखों के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये ही सामान की आपूर्ति उच्च दरों पर की गई है जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता को इंगित करता है, जिस कारण निम्न तालिका अनुसार ₹31814/- किया गया अनियमित है। व्यय अतः के सामान के क्रय से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने का पूर्ण औचित्य अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिचित किया जाए।

क्रम सं०	आपूर्तिकर्ता /संविदाकार	बिल सं०/ दिनांक	सामग्री /सेवा	मात्रा	भुगतान राशि (₹)	भुगतान तिथि	रोकड़ बही पृष्ठ सं०
1	Khandala Electrical & Electronics, Nerw	02/ 20- 02-22/	Electrical Kettle	1	7577	24-02- 2022	8
			Ceiling Fan	2			
			Extension Boards	3			
2	Tomar Book Depot	12/17- 02-22	Various Stationery Items		6637	24-02- 2022	8
3	M/s. Chandel Hardware	392/26- 02-22	Purchase of Tanki	1	4800	26-02- 2022	8
4	Khandala Electrical & Electronics, Nerwa	45/25- 02-22	Pillar Heater	1	3500	26-02- 2022	8

5	M/s. Prince Footwear Home	99/25- 02-22	Gum Boots	6	5280	26-02- 2022	8
			Gloves	12			
6	M/s Bhandari departmental Store, Nerwa	495/ 10-02- 22	Balti	3	4020	24-02- 2022	8
			Mug	3			
			Dustpan	2			
			Tray Namkeen	1			
			Plates	12			
Total Amount					31814		

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 2023-24-न०प०नेरवा-05-01 दिनांक: 06.03.2024 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना किये गये उक्त अनियमित क्रय का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21. क्रय किए गए सामान ₹ 0.31 लाख का स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए सामान के किसी भी दुरुूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्रम स०	आपूर्तिकर्ता /संविदाकार	बिल स०/ दिनांक	सामग्री /सेवा	मात्रा	भुगतान राशि (₹)	भुगतान तिथि	रोकड़ बही पृष्ठ स०
1	Khandala Electrical & Electronics, Nerw	02/ 20-02-22/	Electrical Kettle	1	7577	24-02-2022	8
			Ceiling Fan	2			
			Extension Boards	3			

2	Tomar Book Depot	12/17-02-22	Various Stationery Items		6637	24-02-2022	8
3	M/s. Chandel Hardware	392/26-02-22	Purchase of Tanki	1	4800	26-02-2022	8
4	Khandala Electrical & Electronics, Nerwa	45/25-02-22	Pillar Heater	1	3500	26-02-2022	8
5	M/s. Prince Footwear Home	99/25-02-22	Gum Boots	6	5280	26-02-2022	8
			Gloves	12			
6	M/s Bhandari departmental Store, Nerwa	495/10-02-22	Balti	3	4020	24-02-2022	8
			Mug	3			
			Dustpan	2			
			Tray Namkeen	1			
			Plates	12			
Total Amount					31814		

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 2023-24-न०प०नेरवा-05-01 दिनांक: 06.03.2024 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः क्रय किए गए सामान का स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने/ खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

22. जे०सी०बी द्वारा किये गए कार्य के लिए Sh. Kapil Dev Sharma, Govt. Contractor को ₹.17 लाख का अनियमित भुगतान: -

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित माह 02/2022 में Sh. Kapil Dev Sharma, Govt. Contractor को ₹17248/- का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

- वाउचर सं०/ दिनांक- अंकित नहीं
- रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 08

- कार्य- Payment Kapil Dev Sharma, Govt. Contractor - RTGS सं०/दिनांक- No. NP/Nerwa-Acc(RTGS)2021-189/26-02-22 - कार्य आदेश सं०/दिनांक- वाउचर के साथ संलग्न नहीं - भुगतान राशी- ₹17248/-				
बिल सं०/दिनांक	मद/सामग्री	मद/सामग्री की मात्रा	मद/सामग्री की दर (₹)	राशि (₹)
114/ 25-02-22	JCB Work	14 Hrs	1100 + 12% GST	17248

उक्त भुगतान की पड़ताल पर निम्न अनियमितताएँ पाई गई:-

- अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि इस कार्य हेतु न तो आकलन तैयार किया गया था और न ही कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया गया था, जिस कारण किये गये भुगतान को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।
- अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त भुगतान से सम्बंधित निविदा संबंधी औपचारिकताएँ को पूर्ण किये बिना ही कार्य किया गया था जिस से प्रतीत होता है कि ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचने का प्रयास किया गया था।
- नगर पंचायत द्वारा JCB की लोग बुक की प्रति अंकेक्षण भी प्रस्तुत नहीं किया गया था जिस से ठेकेदार द्वारा किये गए कार्य के घंटों की पुष्टि भी नहीं हो सकी। इस प्रकार से किये गये भुगतान सही नहीं ठहराया जा सकता।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 2023-24-न०प०नेरवा-05-01 दिनांक: 06.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः भविष्य में इस प्रकार के कार्यों के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करने उपरान्त भुगतान को कनिष्ठ अभियंता से सत्यापित करवाकर तथा माप पुस्तिका में प्रविष्ट कर, माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या का विवरण सम्बंधित बिलों पर देने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23. बिना पारित आदेश के ठेकेदारों/संविदाकारों को ₹0.71 लाख की बयाना राशि (EMD) राशी के अनियमित भुगतान बारे:-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित माह 02/2022 के अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न प्रकरण में

ठेकेदारों/संविदाकारों की बयाना राशि का भुगतान बिना पारित आदेश के किया गया था तथा संबंधित रजिस्टर का रख रखाव भी नहीं किया गया था -

• वाउचर सं०/ दिनांक- अंकित नहीं • रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 08 • कार्य- Payment Various Contractors on A/c of Refund of Earnst Money • RTGS सं०/दिनांक- No. NP/Nerwa-Acc(RTGS)2021-188/24-02-22 • भुगतान राशि - ₹71120		
क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	राशि (₹)
1	श्री रोहित सूद	5320
2	श्री देवेंदर	4900
3	श्री खयाली राम	10715
4	श्री मोहन लाल	5320
5	श्री दिनेश कुमार	5395
6	श्री कमलेश लत्ता	5475
7	श्री कपिल देव	9930
8	श्री चाँद राम	8090
9	श्री राहुल चौहान	9930
10	श्री दीप राम	3310
11	श्री नरेंद्र कुमार	2735
	कुल भुगतान	71120

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 2023-24-न०प०नेरवा-05-01 दिनांक: 06.03.2024 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः बिना पारित आदेशों के किये गए उक्त भुगतान तथा सम्बंधित रजिस्टर का रख रखाव नहीं करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः भविष्य में पारित आदेश जारी करने के उपरांत ही ठेकेदारों के बयाना राशि का भुगतान किया जाये तथा सम्बंधित अभिलेखों/ रजिस्टर का ठीक से अनुरक्षण किया जाये।

24. मै० अंशुल इंटरप्राइजेज, नेरवा को ₹3.56 लाख के भुगतान के सन्दर्भ में पाई गई अनियमितताओं बारे: -

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत व्यय जाँच में पाया गया कि M/s Anshul Enterprises, Nerwa को स्ट्रीट लाइट्स की खरीद तथा स्थापना हेतु ₹356850/- का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

• वाउचर सं०/ दिनांक- अंकित नहीं • रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 05 • कार्य- Payment M/s Anshul Enterprises, Nerwa • RTGS सं०/दिनांक- No. NP/Nerwa-Acc(RTGS)2021-167-168/24-11-21 • कार्य आदेश सं०/दिनांक- No. Nerwa/NP(Street Light)2021/ 03-11-21 • भुगतान राशी- ₹356850				
बिल सं०/दिनांक	मद/सामग्री	मद/सामग्री की मात्रा	मद/सामग्री की दर (₹)	राशि (₹)
257/ 16-11-22	Street Light 25 W	20	1950	39000
	Street Light 45 W	30	3150	94500
	Service Wire 25 mm	15	11250	168750
	Street Light Pipe	50	180	9000
	Steel Wire 1500m	2	10300	20600
	Installation Charges		25000	25000
	कुल			356850

स्ट्रीट लाइट्स की खरीद व स्थापना के संदर्भ में निम्न अनियमितताएं पाई गई:-

- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 101 के अनुसार एक लाख रूपए से अधिक की राशि के सामान का क्रय टेंडर आमंत्रित करके किया जाना अनिवार्य था वर्णित खरीद कुटेशन के आधार पर की गई थी, जिससे प्रतीत होता है कि चहिती फर्म को अनुचित लाभ देने के लिए उक्त प्रक्रिया की अवहेलना की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

- ii) अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि कार्य के मूल्यांकन माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया था, जिस कारण किये गये भुगतान को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता था।
- iii) क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका पृष्ठ संख्या 11 पर तो की गई थी परन्तु सामग्री जारी करने सम्बंधी कोई प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में दर्ज नहीं पाई गई थी।
- iv) इस कार्य से सम्बंधित निविदा आमंत्रण सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि सूचना में क्रय करने वाली सामग्री की मात्रा अंकित नहीं गई थी परन्तु कार्यालय को प्राप्त निविदाओं में एक सामान मात्रा अंकित प्राप्त पाई गई थी जो कि संभव प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त निविदा आमंत्रण सूचना में Binding Clips प्रति Piece की दर भी आमंत्रित की गयी थी जो कि सभी निविदाकारों की निविदाओं में अंकित नहीं पाई गई थी। अतः सभी निविदाकारों से प्राप्त निवेदाओं में एक ही प्रकार की त्रुटियाँ का पाया जाना स्वाभाविक नहीं हो सकता है, इस प्रकार किसी भी निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं की गड़बड़ी से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
- v) अभिलेखों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि कार्य के लिए प्राप्त निविदा सम्बन्धी औपचारिकताएं भी उचित प्रकार से संपन्न नहीं की गयी थी जैसे कि निविदाओं के साथ लिफाफे संलग्न नहीं पाए गए थे।
- vi) कार्य आदेश सं० No. Nerwa/NP(Street Light)2021 दिनांक 03-11-21 अनुसार Installation Charges बारे कोई उल्लेख नहीं था परन्तु फिर भी निविदाकार को ₹ 25000 का भुगतान किया गया था जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।
- vii) अभिलेखों के जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उक्त बिल निम्न विवरण अनुसार संविधानिक कटौतियां नहीं की गयी है।

बिल की राशि	आयकर (1%) (₹)	सी०जी० एस०टी (1%) (₹)	एस०जी० एस०टी (1%) (₹)	कुल (₹)
356850	3569	3569	3569	10707

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 2023-24-न०प०नेरवा-05-01 दिनांक: 06.03.2024 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः पाई गयी अनियमितताओं बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त उक्त वर्णित अभिलेखों के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये तथा

संविधानिक कटौतियां की वसूली उचित स्रोत से करके सरकारी खजाने में जमा करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25. प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत ₹ 9 लाख का अनियमित भुगतान:-

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के लेखों के अंतर्गत चयनित माह 04/2022 के व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित प्रकार से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत गृह निर्माण हेतु प्रत्येक परिवार को प्रथम किश्त के रूप में कुल ₹ 9 लाख का अनियमित भुगतान किया गया है:-

क्रम सं०	लाभार्थी का नाम	स्वीकृति पत्र सं० /दिनांक	प्रथम किश्त की राशि (₹)	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ सं०	संरचनात्मक डिजाइन	मल्लिक्य त भूमि	परिवार नक़ल / सं०
1	श्री दर्विंदर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह (वार्ड सं० 6)	4/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	हाँ	130900310301- 861-800-921
2	श्री मुनीश कुमार पुत्र श्री स्व० राम लाल	21/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	नहीं	130900310301- 857-200-106
3	श्रीमति गीता देवी पत्नी श्री अमर सिंह	2/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	हाँ	130900310301- 861-800-921
4	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दुला राम	14/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	नहीं	130900310301- 857-200-93
5	श्री अमन सूद पुत्र श्री विनोद कुमार	27/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	हाँ	130900310301- 858-300-979
6	श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री अशोक	12/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	नहीं	130900310301- 858-300-990
7	श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री अशोक कुमार	NA	50000	28-04- 2022	01	नहीं	हाँ	130900310301- 858-300-688
8	श्री भागमल पुत्र श्री रूप सिंह	24/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	हाँ	66
9	श्री मस्त राम पुत्र श्री परमानन्द	13/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	हाँ	130900310301- 859-400-439
10	श्री फ़कीर चंद पुत्र श्री इनारु राम	20/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	हाँ	130900310301- 858-300-947
11	श्री केवल राम पुत्र श्री छज्जू राम	26/10-02- 2022	50000	28-04- 2022	01	नहीं	हाँ	130900310301- 856-900-369

12	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री छज्जू राम	16/10-02-2022	50000	28-04-2022	01	नहीं	हाँ	130900310301-858-300-937
13	श्री प्रेम चंद पुत्र श्री मस्त राम	9/10-02-2022	50000	28-04-2022	01	नहीं	नहीं	130900310301-858-300-786
14	श्री समीर हुसैन पुत्र श्री मोहमद नजीर	22/10-02-2022	50000	28-04-2022	01	नहीं	हाँ	130900310301-858-300-940
15	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री छज्जू राम	26/10-02-2022	50000	28-04-2022	01	नहीं	हाँ	130900310301-855-900-526
16	श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री शंकरु	NA	50000	28-04-2022	01	नहीं	हाँ	130900310301-859-400-912
17	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मस्त राम	15/10-02-2022	50000	28-04-2022	01	नहीं	हाँ	130900310301-859-400-897
18	श्री दर्विंदर सिंह पुत्र श्री सूरत राम (वार्ड सं० 5)	17/10-02-2022	50000	29-04-2022	02	नहीं	हाँ	130900310301-185-720-088
कुल भुगतान			900000					

उक्त भुगतान की पड़ताल पर निम्न अनियमितताएँ पाई गई:-

- अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत उक्त चयनित परिवारों/लाभार्थियों की निदेशक, शहरी विकास हि०प्र० द्वारा अनुमोदित सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी इस कारण से पात्र लाभार्थी की सत्यापना संभव न हो सकी।
- नगर पंचायत द्वारा उक्त परिवारों/लाभार्थियों की सूची में क्रम संख्या 1 एवं 3 के परिवार/लाभार्थी से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त लाभार्थी एक ही परिवार के सदस्य है (परिवार नकल / सं० **130900310301-861-800-921**) परन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी द्वारा जारी दिशानिर्देश मार्च 2016 के अनुसार एक परिवार में से एक ही लाभार्थी का चयन किया जाना वांछित है।
- नगर पंचायत द्वारा जारी किये गए आबंटन पत्र की शर्तोंनुसार चयनित परिवारों/लाभार्थियों को गृह निर्माण कार्य पूर्व अनुमोदित नक्शानुसार किया जाना अपेक्षित था परन्तु उपरोक्त किये गए भुगतानों से सम्बंधित चयनित परिवारों/लाभार्थियों के अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि किसी भी चयनित परिवारों/लाभार्थियों से संबंधित अनुमोदित गृह निर्माण नक्शा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- नगर पंचायत द्वारा जारी किये गए आबंटन पत्र की शर्तोंनुसार तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी द्वारा जारी दिशा निर्देशोंनुसार चयनित परिवारों/लाभार्थियों से गृह निर्माण कार्य मल्लिकयत भूमि पर किया जाना अपेक्षित था परन्तु चयनित परिवारों/लाभार्थियों से सम्बंधित अभिलेखों का अवलोकन करने पर

पाया गया कि क्रम सं०2,4,6, व 13 पर दर्ज परिवारों/लाभार्थियों के पास मूल्यांकित भूमि उपलब्ध नहीं थी।

- v) नगर पंचायत द्वारा चयनित परिवारों/लाभार्थियों से प्राप्त आवेदन फॉर्म को भी ठीक तथा पूर्ण रूप से भरकर सत्यापित भी नहीं किया गया था।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या:13 दिनांक:12.3.2024 द्वारा उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र सं० शून्य दिनांक मार्च 2024 में सूचित किया गया कि सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायगी, अतः प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत गृह निर्माण हेतु किये गए भुगतान से संबंधी अनियमितताओं बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

26. नगर पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना -

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 03/2023 के अंतर्गत व्यय जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित सुचना अनुसार नगर पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय भुगतान किया गया था परन्तु मानदेय रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अंतः नगर पंचायत पदाधिकारियों को भुगतान किये मानदेय की पूर्ण पड़ताल संभव नहीं हो सकी।

• वाउचर सं०/दिनांक- अंकित नहीं/01-02-2022 • रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 07 • आर०टी०जी०एस सं०/दिनांक- No.NP/CPL(Estt.)-93/ 01.02.2022					
क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम	पद	मानदेय की दर (₹ प्रति माह)	अवधि	राशि (₹)
1	श्रीमती बबिता देवी	अध्यक्ष	5500	4 माह (अक्तूबर, 2021 से जनवरी, 2022)	22000
2	श्रीमती रूचि	उप- अध्यक्ष	4000		16000
3	श्री शूरवीर सिंह	वार्ड सदस्य	2500		10000
4	श्रीमती सीमा देवी	वार्ड सदस्य	2500		10000
5	श्रीमती शांति देवी	वार्ड सदस्य	2500		10000
6	श्री योगेंद्र पुरता	वार्ड सदस्य	2500		10000
7	श्री संजय कुमार	वार्ड सदस्य	2500		10000
	कुल भुगतान				88000

अंकेक्षण अध्याचना संख्या:11 दिनांक: 6.3.2024 तथा 12 दिनांक 11.3.2024 द्वारा उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र सं० शून्य दिनांक मार्च 2024 में सूचित किया गया कि सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों पर भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायगी। अतः किये गए भुगतान से संबंधी अनियमितताओं को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27. तकनीकी स्वीकृति तैयार करवाए बिना ₹5.77 लाख के कार्य निष्पादन करना:-

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के लेखों के अंतर्गत चयनित माह के व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि नगर पंचायत द्वारा निम्न तालिका में वर्णित निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार तकनीकी प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना करवाया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है, जबकि प्रत्येक निर्माण कार्य को करवाने से पूर्व उस निर्माण कार्य का नियमानुसार नक्शा इत्यादि तैयार करना अनिवार्य होता है। नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों को निष्पादित करने से पूर्व निम्न कार्यों की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जोकि अनियमित है:-

• वाउचर सं०/दिनांक- अंकित नहीं/28-04-2022 • रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 10 • आर०टी०जी०एस सं०/दिनांक- No.NP/Nerwa-157/ 04-05-22						
क्रम सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	आवंटन पत्र सं०/ दिनांक	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	स्वीकृत राशी	बिल की राशी
1	R/M of Path main road towards GSSS Nerwa at W. No. 3, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-227-230 24-02-2022	0001 (09-11)	96000	102790
2	R/M of Footpath main road to Devender Gupta House at W. No. 06, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-199-202 24-02-2022	0001 (14-16)	43400	39010
3	R/M of Footpath main road to Ramlal and Sohanlal Sharma House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-191-194 24-02-2022	0001 (16-18)	41850	33930

4	P/L of Checkered tiles from main road to living values public school Bhawani nagar, W. No. 04, NO Nerwa	श्री नरेंद्र कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-215-18 No./NP 24-02-2022	0001 (22-25)	113211	114790
5	C/o Foot Path Main Road to Rai Singh & Nita Gunta House at W. No. 7, NP Nerwa	श्री रोहित सूद	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-223-226 24-02-2022	0001 (01-08)	172055	172326
6	R/M of Footpath main road to Rohanlal Sharma House at W. No. 06, NP Nerwa	श्री भारत भूषण	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-195-198 24-02-2022	0001 (12-14)	19119	12278
7	R/M of Footpath main road to Naresh House & Om Prakash House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री सुनील कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-187-190 24-02-2022	0001 (18-20)	49683	42964
8	R/M of Footpath main road to Kuldeep Chauhan House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री सुनील कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-183-186 24-02-2022	0001 (20-22)	42642	34464
कुल भुगतान					577960	552552

अंकेक्षण अधियाचना संख्या:11 दिनांक 6.3.2024 द्वारा उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था,परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत से इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं किया गया। अतः तकनीकी स्वीकृति तैयार करवाए बिना निर्माण कार्यों के निष्पादन बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवम मामलें में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

28. गणना में त्रुटी कर संविदाकार को ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान करना:-

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के लेखों के अंतर्गत चयनित माह 04/2022 के व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि नगर पंचायत के निम्न वर्णित कार्यों में माप पुस्तिका में गणना त्रुटी कर संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था:-

- वाउचर वाउचर सं०/दिनांक- अंकित नहीं/28-04-2022
- रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 10
- आर०टी०जी०एस सं०/दिनांक- No.NP/Nerwa-157/ 04-05-22सं०/दिनांक- अंकित नहीं/28-04-2022

विवरण	मद सं० / मद	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	माप पुस्तिका अनुसार गणना	सही गणना	अंतर	मद की दर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
- कार्य का नाम- C/o Foot Path Main road to Rai Singh & Nita Gunta House at W. No. 7, NP Nerwa - संविदाकार-श्री रोहित सूद - अनुमानित लागत- 165313 - पुरस्कृत राशी- 172055 - आवंटन पत्र सं०- No.NP/Nerwa/ AwardLetter/ 2022-223-226 दिनांक- 24/02/2022 - कार्य प्रारंभ करने की तिथि- 28/02/2022 - कार्य पूर्ण करने की तिथि- 29/03/2022 - माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०- 0001 (01-08)	5./ Chequerred Precast Cement Concrete Tiles 22mm thick in footpath & Courtyard including rubbing and cleaning etc. Complete on 20mm thick bed of cement mortar 1:4 (1Cement: 4 Coarse sand)	0001 (04)	1x2x1.3x0.2 = 1.43 m ²	1x2x1.3x 0.2= 0.52 m ²	0.91 m ²	1000	910
- कार्य का नाम- R/M of Path main road towards GSSS Nerwa at W. No. 3, NP Nerwa - संविदाकार-श्री ओम प्रकाश - अनुमानित लागत- 91828 - पुरस्कृत राशी- 96000 - आवंटन पत्र सं०- No.NP/Nerwa/ AwardLetter/ 2022-227-230 दिनांक- 24/02/2022 - कार्य प्रारंभ करने की तिथि- 04/03/2022	1./ P&L in position Cement Concrete of Specific Grade excluding the cost of centering and shuttering 1:3:6 (1Cement: 3 Corse Sand: 6	0001 (09)	1x1x8.4x($\frac{2.00+1.50}{2}$)x0. 10= 1.89 m ³	1x1x8.4x $(\frac{2.00+1.50}{2})$ x0.10= 1.47 m ³	0.42	5500	2310

- कार्य पूर्ण करने की तिथि- 19/03/2022 - माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०- 0001 (09-11)	Graded Stone 20 mm NS)						
	2./ Chequerred Precast Cement Concrete Tiles 22mm thick in footpath & Courtyard including rubbing and cleaning etc. Complete on 20mm thick bed of cement mortar 1:4 (1Cement: 4 Coarse sand)	0001 (10)	1x1x15x $(\frac{1.6+1.7+2}{3})=$ 39.75 m ²	1x1x15x $(\frac{1.6+1.7+2}{3})=$ 26.50 m ²	13.25	1000	13250
कुल अधिक भुगतान							16470

अंकेक्षण अधियाचना संख्या:11 दिनांक 6.3.2024 द्वारा उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं किया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29. निर्माण कार्य बिलों में रॉयल्टी की कम कटौती करना :-

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) {Himachal Pradesh Department of Industries – Geological Wing} Rules, 2015 की दूसरी अनुसूची में निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले क्षुद्र खनिज जैसे रेत, बजरी, पत्थर, मिट्टी, ईट इत्यादि की मात्रा के विरुद्ध की जाने वाली रॉयल्टी की कटौती की दरें प्रतिपादित की गई हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि निर्माण कार्य बिलों से निम्न तालिका अनुसार नगर पंचायत द्वारा रॉयल्टी की ₹1751/- की कम कटौती की गई है। उक्त

वर्णित अनियमितता के संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या(11 दिनांक(6.03.2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत,नेरवा से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/फर्म से कम वसूली की गई रॉयल्टी की राशि को उद्योग विभाग को जमा करवाया जाए तथा भविष्य हेतु कार्यप्रणाली में सुधार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- वाउचर सं०/दिनांक- अंकित नहीं/28-04-2022 - रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 10 - आर०टी०जी०एस सं०/दिनांक- No.NP/Nerwa-157/ 04-05-22									
क्रम सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	माप पुस्तिका अनुसार सामग्री की खपत (क्यु० मी० में)	सामग्री की मात्रा (टनों में)	रॉयल्टी दर (₹ प्रति टन)	देय रॉयल्टी (₹)	बिल अनुसार की गयी रॉयल्टी की कटौती (₹)	अंतर (₹)
1	R/M of Path main road towards GSSS Nerwa at W. No. 3, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	0001 (09-11)	रेत- 4.21	4.21x1.62= 6.82	80	546	442	104
				बजरी- 4.40	4.40x1.52= 6.69	80	535	462	73
2	R/M of Footpath main road to Devender Gupta House at W. No. 06, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	0001 (14-16)	रेत- 2.06	2.06x1.62= 3.38	80	270	217	53
				बजरी- 2.92	2.92x1.52= 4.44	80	355	307	48
3	R/M of Footpath main road to Ramlal and Sohanlal Sharma House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	0001 (16-18)	रेत- 1.58	1.58x1.62= 2.56	80	204	167	37
				बजरी- 1.97	1.97x1.52= 3	80	240	207	33
4	P/L of Checkered tiles from main road to living values public school Bhawani nagar, W. No. 04, NO Nerwa	श्री नरेंद्र कुमार	0001 (22-25)	रेत- 4.56	4.56x1.62= 7.39	80	591	480	111
				बजरी- 4.53	4.53x1.52= 6.89	80	551	476	75
5	C/o Foot Path Main road to Rai Singh & Nita Gunta	श्री रोहित सूद	0001 (01-08)	रेत- 7.15	7.15x1.62= 11.58	80	926	751	175
				पत्थर- 9.92	9.92x2.24= 22.22	80	1777	1043	734

	House at W. No. 7, NP Nerwa			बजरी- 6.37	$6.37 \times 1.52 = 9.68$	80	774	670	104
6	R/M of Footpath main road to Rohanlal Sharma House at W. No. 06, NP Nerwa	श्री भारत भूषण	0001 (12-14)	रेत- 0.59	$0.59 \times 1.62 = 0.96$	80	77	52	25
				बजरी- 0.76	$0.76 \times 1.52 = 1.16$	80	93	81	12
7	R/M of Footpath main road to Naresh House & Om Prakash House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री सुनील कुमार	0001 (18-20)	रेत- 2.06	$2.06 \times 1.62 = 3.34$	80	267	217	50
				बजरी- 2.63	$2.63 \times 1.52 = 4.00$	80	320	276	44
8	R/M of Footpath main road to Kuldeep Chauhan House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री सुनील कुमार	0001 (20-22)	रेत- 1.64	$1.64 \times 1.62 = 2.66$	80	213	172	41
				बजरी- 2.06	$2.06 \times 1.52 = 3.13$	80	250	218	32
	कुल अधिक भुगतान								1751

अंकेक्षण अध्याचना संख्या:11 दिनांक 6.3.2024 द्वारा उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं किया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा रायल्टी के कम भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30. संविदाकारों के बिलों से ₹ 0.08 लाख के जल व बिजली प्रभार की कटौती न करना:-

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के लेखों के अंतर्गत चयनित माह 04/2022 के व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि निम्न वर्णित कार्यों से आवंटन पत्र की शर्तानुसार बिलों से 1.5% की दर से जल व बिजली प्रभार की कटौती नहीं की गयी थी तथा ना ही इस बारे माप पुस्तिका में कोई प्रमाणन दर्ज पाया गया था :-

- वाउचर सं०/दिनांक- अंकित नहीं/28-04-2022
- रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 10
- आर०टी०जी०एस सं०/दिनांक- No.NP/Nerwa-157/ 04-05-22

क्रम सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	आवंटन पत्र सं०/ दिनांक	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	बिल की राशि	शतानुसार 1.5% की दर से जल व बिजली प्रभार की कटौती
1	R/M of Path main road towards GSSS Nerwa at W. No. 3, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-227-230/24-02-2022	0001 (09-11)	102790	1542
2	R/M of Footpath main road to Devender Gupta House at W. No. 06, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-199-202 /24-02-2022	0001 (14-16)	39010	585
3	R/M of Footpath main road to Ramlal and Sohanlal Sharma House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-191-194/24-02-2022	0001 (16-18)	33930	509
4	P/L of Checkered tiles from main road to living values public school Bhawani nagar, W. No. 04, NO Nerwa	श्री नरेंद्र कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-215-18/24-02-2022	0001 (22-25)	114790	1722
5	C/o Foot Path Main road to Rai Singh & Nita Gunta House at W. No. 7, NP Nerwa	श्री रोहित सूद	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-223-226/24-02-2022	0001 (01-08)	172326	2585
6	R/M of Footpath main road to Rohanlal Sharma House at W. No. 06, NP Nerwa	श्री भारत भूषण	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-195-198/24-02-2022	0001 (12-14)	12278	184
7	R/M of Footpath main road to Naresh House & Om Prakash House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री सुनील कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-187-190/24-02-2022	0001 (18-20)	42964	644
8	R/M of Footpath main road to Kuldeep Chauhan House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री सुनील कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-183-186/24-02-2022	0001 (20-22)	34464	517
कुल अपेक्षित कटौती की राशि					552552	8288

अंकेक्षण अधियाचना संख्या:11 दिनांक 6.3.2024 द्वारा उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं किया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31. संविदाकारों के बिलों से ₹0.28 लाख संविधानिक कटौतियों को संबंधित विभागों में जमा न करना: -

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के लेखों के अंतर्गत चयनित माह 04/2022 के व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि नगर पंचायत द्वारा ₹ 28342 की राशि को निम्न वर्णित कार्यो संविधानिक कटौतियों की गई थी परन्तु उनको सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया था:-

• वाउचर सं०/दिनांक- अंकित नहीं/28-04-2022 • रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 10 • आर०टी०जी०एस सं०/दिनांक- No.NP/Nerwa-157/ 04-05-22										
क्रम सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	आवंटन पत्र सं०/ दिनांक	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	बिल की राशि	लेबर उपकार (1%)	आयकर (1%)	सी०जी० एस०टी (1%)	एस०जी० एस०टी (1%)	रॉयल्टी (₹)
1	R/M of Path main road towards GSSS Nerwa at W. No. 3, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-227-230 24-02-2022	0001 (09-11)	102790	1028	1028	1028	1028	904
2	R/M of Footpath main road to Devender Gupta House at W. No. 06, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-199-202 24-02-2022	0001 (14-16)	39010	390	390	390	390	523
3	R/M of Footpath main road to Ramlal and Sohanlal Sharma House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-191-194 24-02-2022	0001 (16-18)	33930	339	339	339	339	372

4	P/L of Checkered tiles from main road to living values public school Bhawani nagar, W. No. 04, NO Nerwa	श्री नरेंद्र कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-215-18 No./NP 24-02-2022	0001 (22-25)	114790	1148	1148	1148	1148	954
5	C/o Foot Path Main road to Rai Singh & Nita Gunta House at W. No. 7, NP Nerwa	श्री रोहित सूद	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-223-226 24-02-2022	0001 (01-08)	172326	1723	1723	1723	1723	2461
6	R/M of Footpath main road to Rohanlal Sharma House at W. No. 06, NP Nerwa	श्री भारत भूषण	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-195-198 24-02-2022	0001 (12-14)	12278	123	123	123	123	142
7	R/M of Footpath main road to Naresh House & Om Prakash House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री सुनील कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-187-190 24-02-2022	0001 (18-20)	42964	430	430	430	430	493
8	R/M of Footpath main road to Kuldeep Chauhan House at W. No. 6, NP Nerwa	श्री सुनील कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-183-186 24-02-2022	0001 (20-22)	34464	345	345	345	345	389
कुल राशि						5526	5526	5526	5526	6238

अंकेक्षण अध्याचना संख्या:11 दिनांक 6.3.2024 द्वारा उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं किया गया। अतः उक्त वर्णित कार्यों से की गई संविधानिक कटौतियों को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाये तदोपरान्त पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों की मदों में विचलन (Deviation) करके संविदाकारों को ₹0.50 लाख का अनाधिकृत भुगतान करना: -

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के लेखों के अंतर्गत चयनित माह 04/2022 के व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि निम्न निर्माण कार्यों के बिलों में मदों के विचलन (Deviation Statement) को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही संविदाकारों को भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है:-

• वाउचर सं०/दिनांक- अंकित नहीं/28-04-2022 • रोकड़ बही पृष्ठ सं०- 10 • आर०टी०जी०एस सं०/दिनांक- No.NP/Nerwa-157/ 04-05-22											
क्रम सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	आवंटन पत्र सं०/ दिनांक	माप पुस्तिका सं०/ पृष्ठ सं०	बिल की राशी	मद	प्राक्कलन अनुसार मद की मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार मद की मात्रा	अतिरिक्त किया गया मद का निष्पादन/ प्रतिशत	मद की दर (₹)	अतिरिक्त भुगतान
1	R/M of Path main road towards GSSS Nerwa at W. No. 3, NP Nerwa	श्री ओम प्रकाश चौहान	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-227-230 24-02-2022	0001 (09-11)	102790	1./ P&L in position Cement Concrete of Specific Grade excluding the cost of centering and shuttering 1:3:6 (1Cement: 3 Corse Sand: 6 Graded Stone 20 mm NS)	3 m ³	4.94 m ³	1.94 m ³ / 64.67%	5500/ m ³	10670
2	P/L of Checkered tiles from main road	श्री नरेंद्र कुमार	No./NP /Nerwa/ Award letter	0001 (22-25)	114790	1./ P&L in position Cement Concrete of	1.8 m ³	5.09 m ³	3.29 m ³ / 182.78%	5495/ m ³	18078

	to living values public school Bhawani nagar, W. No. 04, NO Nerwa		/2022-215-18 No./NP 24-02-2022			Specific Grade excluding the cost of centering and shuttering 1:3:6 (1Cement: 3 Corse Sand: 6 Graded Stone 20 mm NS)					
3	C/o Foot Path Main road to Rai Singh & Nita Gunta House at W. No. 7, NP Nerwa	श्री रोहित सूद	No./NP /Nerwa/ Award letter /2022-223-226 24-02-2022	0001 (01-08)	172326	5./ Chequerred Precast Cement Concrete Tiles 22mm thick in footpath & Courtyard including rubbing and cleaning etc. Complete on 20mm thick bed of cement mortar 1:4 (1Cement: 4 Coarse sand)	55.3 m ²	76.27 m ²	20.97 m ² / 37.92%	1000/ m ²	20970
कुल अधिक भुगतान											49718

अंकेक्षण अधियाचना संख्या:11 दिनांक 6.3.2024 द्वारा उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं किया गया। अतः किये

गये अनाधिकृत अधिक भुगतान को या तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33. अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:-

नगर पंचायत नेरवा के अवधि 11/2020 से 3/2023 तक के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जबकि नियमानुसार वर्णित रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है। अतः वर्णित अभिलेख के रख रखाव करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अब अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

- वस्तु व सेवा कर, आय कर, श्रम कर व रॉयल्टी रजिस्टर
- कांटेक्टर लेजर
- बजट रजिस्टर
- वेतन बिल रजिस्टर
- RTI रजिस्टर
- मांग एवं संग्रहण रजिस्टर
- आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन संबंधी रजिस्टर
- अनुदान रजिस्टर
- मानदेय रजिस्टर
- बिजली उपकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
- शराब उपकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
- चयनित प्रतिनिधियों को मानदेय चेक रजिस्टर
- बिजली/पानी/टेलीफोन चेक रजिस्टर
- यात्रा भत्ता दावा व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रजिस्टर
- प्रतिभूति व धरोहर राशि जमा रजिस्टर

34. स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न करना:-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय-12 के पैरा-12.43(सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन

करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से किया जायेगा साथ ही प्रत्यक्ष सत्यापन और किताबी अभिलेख में अंतर पाये जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे। नगर पंचायत द्वारा अवधि 01.11.2020 से 31.03.2023 के दौरान स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवम हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय-12 के पैरा-12.43(सी) के अनुसार स्टॉक/स्टोर का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।
36. **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की नितांत आवश्यकता है।

(रविन्द्र कंवर)

उप निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009.

दूरभाष -0177-2620881

का०/५०

18 JUN 2024

2870 - 2872

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0प्र0)(एच)(2)सी(15)(5)119/2024 खण्ड-1 दिनांक: शिमला-171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।
- पंजीकृत : 3 सचिव, नगर पंचायत नेरवा, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

18 JUN 2024

(रविन्द्र कंवर)

उप निदेशक,


हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009.

दूरभाष -0177-2620881

का०/५०

Financial Position of Nagar Panchyat Nerwa							
YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving +FDR interest)	TOTAL	Expenditure	CLOSING BALANCE
2020-21	Own Sources	0	0	0	0	0	0
	Grants-in-aid	0	3891034	14572	3905606	0	3905606
	Total	0	3891034	14572	3905606	0	3905606
2021-22	Own Sources	0	121475	0	121475	71120	50355
	Grants-in-aid	3905606	11776700	109609	15791915	2028746	13763169
	Total	3905606	11898175	109609	15913390	2099866	13813524
2022-23	Own Sources	50355	613273	0	663628	535103	128525
	Grants-in-aid	13763169	15829113	370065	29962347	6526664	23435683
	Total	13813524	16442386	370065	30625975	7061767	23564208
Bank Reconciliation Statement							
Total as per Financial Position as on 31.03.2023							23564208
Add: Payments made but not debited by bank till 31.03.2023 from Bank A/c No. 5398 (Detail Given Below)							
Payment to Sh. Jagmohan Bhaik Sanitation Contactor (CBP-27)							20000
Payment to Sh. Chand Ram (Security Money) (CBP-27)							5320
Sh. Rohit Sood (Security Money) & Payment to Sh. Ramesh Kumar Ranaik (₹5782+₹5060) (CBP-27)							10842
Payment to Various Contractors (Earnst Money) (CBP-27)							137293
Payment of Honorarium to Nagar Panchay Members (CBP-27)							53000
Add: Interest Recvied as per Bank Statement on 31/03/2023 but as per Passbook & Cashook on 01/04/2023							
40510116042							5903
40510115413							14550
42710124719							5894
42710124930							86500
40510115356							123864
45010115398							42834
Less: Cash in Hand							50
Less: Balance of PMAY SNA Nodal Account							29900
Total							24040258
Total as per Bank Accounts as on 31.03. 2023 (Detail Given Below)							
HPSCB, Nerwa A/c No.- 40510116042							3083848
HPSCB, Nerwa A/c No.- 40510115413							1056714
HPSCB, Nerwa A/c No.- 42710124719							617237
HPSCB, Nerwa A/c No.- 42710124930							6468884
HPSCB, Chopal A/c No.- 40510115356							10237213
HPSCB, Chopal A/c No.- 45010115398							2576362
Total Balance as per Bank							24040258



 सचिव
 नगरीय पंचायत

After
March 1945

43

Nagar Panchayat Nerwa				
Year 2020-21				
Months	Income			Total (1+2+3=4)
	Income From Own Sources	GIA Received During the year	Interest Income Saving	
	1	2	3	
Apr-...	0	0	0	0
May-...	0	0	0	0
Jun-...	0	0	0	0
Jul-...	0	0	0	0
Aug-...	0	0	0	0
Sep-...	0	0	0	0
Oct-...	0	0	0	0
Nov-...	0	0	0	0
Dec-...	0	1497524	0	1497524
Jan-...	0	0	0	0
Feb-...	0	0	0	0
Mar-...	0	2393510	14572	2408082
Total	0	3891034	14572	3905606

Expenditure 2020-21					
Months	Other Expenditure		Total Expenditure	Expenditure of Deposit Works /Advance More than 3 Lakh	Net Expenditure After Deposit works/Advance
	Expenditure out of Own Sources	Expenditure out of GIA			
	1	2	(1+2=3)	4	(3-4=5)
Apr-...	0	0	0	0	0
May-...	0	0	0	0	0
Jun-...	0	0	0	0	0
Jul-...	0	0	0	0	0
Aug-...	0	0	0	0	0
Sep-...	0	0	0	0	0
Oct-...	0	0	0	0	0
Nov-...	0	0	0	0	0
Dec-...	0	0	0	0	0
Jan-...	0	0	0	0	0
Feb-...	0	0	0	0	0
Mar-...	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0


 २०२०-२१

45

44

Nagar Panchayat Nerwa				
Year 2021-22				
Months	Income From Own Sources	GIA Received During the year	Interest Income Saving	Total
	1	2	3	(1+2+3=4)
Apr-...	0	2336	0	2336
May-...	0	1116000	0	1116000
Jun-...	0	0	0	0
Jul-...	0	5745096	0	5745096
Aug-...	0	0	0	0
Sep-...	0	0	0	0
Oct-...	0	0	109609	109609
Nov-...	0	0	0	0
Dec-...	0	0	0	0
Jan-...	0	1437680	0	1437680
Feb-...	114475	1473252	0	1587727
Mar-...	7000	2002336		2009336
Total	121475	11776700	109609	12007784

Year 2021-22					
Months	Other Expenditure		Total Expenditure	Expenditure of Deposit Works /Advance More than 3 Lakh	Net Expenditure After Deposit works/Advance
	Expenditure out of Own Sources	Expenditure out of GIA			
	1	2	(1+2=3)	4	(3-4=5)
Apr-...	0	0	0	0	0
May-...	0	36580	36580	0	36580
Jun-...	0	36036	36036	0	36036
Jul-...	0	0	0	0	0
Aug-...	0	0	0	0	0
Sep-...	0	0	0	0	0
Oct-...	0	218303	218303	0	218303
Nov-...	0	356850	356850	0	356850
Dec-...	0	338550	338550	0	338550
Jan-...	0	159771	159771	0	159771
Feb-...	71120	882656	953776	0	953776
Mar-...	0	0	0	0	0
Total	71120	2028746	2099866	0	2099866

(Signature)
 100 40 8000

46

48

Nagar Panchayat Nerwa				
Year 2022-23				
Income				
Months	Income From Own Sources	GIA Received During the year	Interest Income Saving	Total
	1	2	3	(1+2+3=4)
Apr-...	0	799863	163286	963149
May-...	0	0	0	0
Jun-...	1000	0	0	1000
Jul-...	0	1004900	0	1004900
Aug-...	261552	6355834	0	6617386
Sep-...	1000	1199795	206779	1407574
Oct-...	17350	7829	0	25179
Nov-...	700	1306379	0	1307079
Dec-...	1150	0	0	1150
Jan-...	2100	0	0	2100
Feb-...	61950	2076568	0	2138518
Mar-...	266471	3077945	0	3344416
Total	613273	15829113	370065	16812451

Year 2022-23					
Months	Other Expenditure		Total Expenditure	Expenditure of Deposit Works /Advance More than 3 Lakh	Net Expenditure After Deposit works/Advance
	Expenditure out of Own Sources	Expenditure out of GIA			
	1	2	(1+2=3)	4	(3-4=5)
Apr-...	0	1368955	1368955	0	1368955
May-...	5150	1188357	1188357	0	1193507
Jun-...	16220	1041032	1041032	0	1057252
Jul-...	0	378195	378195	0	378195
Aug-...	5320	176106	176106	0	181426
Sep-...	0	273625	273625	0	273625
Oct-...	91853	615476	615476	0	707329
Nov-...	0	150519	150519	0	150519
Dec-...	64178	245921	245921	0	310099
Jan-...	0	10660	10660	0	10660
Feb-...	8093	522896	522896	0	530989
Mar-...	344289	554922	554922	0	899211
Total	535103	6526664	6526664	0	7061767

Signature
Date

49

(46)

H P STATE CO-OP BANK LTD
CHOPAL

DATE : 31/03/2023

To,
secretary n.p.(CAPITAL ASSETS) nerwa,
VPO NERWA,CHOPAL
CHOPAL,SHIMLA,
Pin Code : 171210

Dear Sir / Madam,

Subject : SAVING BANK(IND./GP/GOVT./LIC) A/c No.: 40510116042

This is to certify that your account maintained with these
branch carries a balance of Rs. 3083848.00 as on date 31/
03/2023

Credit Balance [In Words] :
Thirty Lac Eighty Three Thousand Eight Hundred Forty Eight Only

Thanking You

Your's Faithfully

The H.P. State Co-op Bank

[Accountant/ Branch Manager]

Manager B.O. Chopal
Branch Manager

128

47

H P STATE CO-OP BANK LTD
CHOPAL

DATE : 31/03/2023

To,
secretary nagar panchayat nerwa dcp,
VPO NERWA, CHOPAL
CHOPAL, SHIMLA,
Pin Code : 171210

Dear Sir / Madam,


Subject : SAVING BANK(IND./GP/GOVT./LIC) A/c No.: 40510115413

This is to certify that your account maintained with these
branch carries a balance of Rs. 1056714.00 as on date 31/
03/2023

Credit Balance [In Words] :
Ten Lac Fifty Six Thousand Seven Hundred Fourteen Only

Thanking You

Yours Faithfully,
The H.P. State Co-op Bank Ltd.


[Accountant/ Branch Manager]
Manager P.O. Ch.
Branch No. 40

49

48
H P STATE CO-OP BANK LTD
NERWA

DATE : 31/03/2023

TO,
SECRETARY NAGAR PANCHAYAT NERWA,
NERWA, NERWA
NERWA, SHIMLA,
Pin Code : 171210

Dear Sir / Madam,


Subject : SAVING BANK(IND./GP/GOVT./LIC) A/c No.: 42710124719

This is to certify that your account maintained with these
branch carries a balance of Rs. 617237.00 as on date 31/0
3/2023

Credit Balance [In words] : Two Hundred Thirty Seven Only
Six lac Seventeen Thousand

Thanking You

Your's Faithful



[Accountant]

520

(49)
H P STATE CO-OP BANK LTD.
NERWA

DATE : 31/03/2023

TO,
NAGAR PANCHAYAT NERWA SFC,
NERWA, NERWA
NERWA SHIMLA, HIMACHAL PRADESH,
Pin Code : 171210

Dear Sir / Madam,

Subject : SAVING BANK(IND./GP/GOVT./LIC) A/c No.: 42710124930


This is to certify that your account maintained with these
branch carries a balance of Rs. 6468884.00 as on date 31/
03/2023

Credit Balance [In words] :
Sixty Four lac Sixty Eight Thousand Eight Hundred Eighty Four Only

Thanking You

Your's Faithfully

[Accountant/ Branch Manager]



50

H P STATE CO-OP BANK LTD
CHOPAL

DATE : 31/03/2023

To,
secretary nagar panchayat nerwa cfc,
VPO NERWA, CHOPAL
CHOPAL, SHIMLA,
Pin Code : 171210

Dear Sir / Madam,


Subject : SAVING BANK(IND./GP/GOVT./LIC) A/c No.: ~~40510115356~~

This is to certify that your account maintained with these
branch carries a balance of Rs. 10237213.00 as on date 31
/03/2023

Credit Balance [In Words] :
One Crore Two Lac Thirty Seven Thousand Two Hundred Thirteen Only

Thanking You

The H.P. State Co-op Bank
Yours Faithfully


[Accountant/ Branch Manager]
Manager B.C. Chopra
Branch No. 40

(5)

H P STATE CO-OP BANK LTD
CHOPAL

DATE : 31/03/2023

To,
secretary nagar panchayat nerwa SFC,
VPO NERWA, CHOPAL
CHOPAL, SHIMLA,
Pin Code : 171210

Dear Sir / Madam,

Subject : SAVING BANK(IND./GP/GOVT./LIC) A/c No.: 40510115398

This is to certify that your account maintained with these
branch carries a balance of Rs. 2576362.00 as on date 31/
03/2023

Credit Balance [In Words] :
Twenty Five Lac Seventy Six Thousand Three Hundred Sixty Two Only

Thanking You

Your's Faithfully
The H.P. State Co-op Bank


[Accountant/ Branch Manager]
Branch No. 405

53

52

REF No: 3125130320241809

DATE: 13-MAR-2024

To,

M/S. NAGAR PANCHAYAT NERWA DAY NULM
C/O NAGAR PANCHAYAT NERWA DAY NULM
NAGAR PANCHAYAT NERWA
DISTT SHIMLA SHIMLA
XX 171210
HIMACHAL PRADESH
INDIA
Joint Applicant 1 :
Joint Applicant 2 :

Balance Confirmation Certificate

Dear Sir/Madam,


We refer to your letter dated _____ requesting the bank to provide balance confirmation certificate for the below referred accounts held with us. Details of balance/s in your accounts held with us at the close of business hours on 31-MAR-2023 is / are as under :

Account Number /Account Title	Type of Accounts (Savings, Current, Cash Credit)	Limits (if applicable)	Balance in Figures (Indicate Debit /Credit balance)	Balance in Words (Indicate Debit /Credit balance)
50100468484571 - NAGAR PANCHAYAT NERWA DAY NULM	Savings	0.00	INR 0.00/- (Credit Balance)	Zero only (Credit Balance)

This certificate is being issued to you upon your specific request.

Yours faithfully,

(Signature)
Name :
Designation :
Employee Code :



Generation Date
13/Mar/2024 12:06

Generated By
D13441

(Signature)
Name :
Designation :
Employee Code:

[Signature]
033441

Requesting Branch Code
3125

54

UCO BANK
NERWA

Customer Balance Report

Customer Id : 233970674

Name : SECRETARY NAGAR PANCHAYAT

Dear Sir,


We hereby certify that the sum of Rs.(as noted below)
was standing in our books at the credit/debit on your undernoted accounts
at the close of business on 31-03-2023

Yours' faithfully,

Manager

A/C No.	Crncy	Total Balance	Fx Crncy	FCNR	Balance
12550110043127	INR	0.00			0
	TOTALS	0.00			0

This is system generated certificate & does not require any signature.



55


नगर परिषद् नेरवा- अनुदान आय-व्यय विवरणी

2020-2021		Grants Income Expenditure Statement						
Sr. NO.	Head	Section No./Date	Opening Balance	Reciept	Total	Expenditure	Balance	UC Send
1	CFC	UD-H(C)(10)-1/2020-29724-752 Dated:- 03.12.2020 Rs.1497524/-	0	2891034	2891034	0	2891034	N/A
		UD-H(C)(10)-1/2020-5869-930 Dated:-23.3.2021 Rs.1393510/-						
2	SFC	UD-H(C)(10)-1/2020-5405-17 Dt. 17.03.2021 Rs.1000000/-	0	1000000	1000000	0	1000000	N/A
		TOTAL=	0	3891034	3891034	0	3891034	


 अधिकारी
 नगर परिषद् नेरवा

नगर परिषद् नेरवा- अनुदान आय-व्यय विवरणी

2021-2022		Grants Income Expenditure Statement						UC Send
Sr. NO.	Head	Section No./Date	Opening Balance	Reciept	Total	Expenditure	Balance	N/A
1	CFC	UD-H(C)(10)-1/2020-loose-6825-891 Dated:-4.06.2021 Rs.2336/-	2891034	2597977	5489011	0	5489011	N/A
		UD-H(C)(10)-1/2020 Dated:-1.07.2021 Rs.1393510/-						
		UD-H(C)(10)-1/2020 Dated:-4.01.2022 Rs.1199795/-						
		UD-H(C)(10)-1/2020 Dated:-6.03.2022 Rs.2336/-						
2	SFC	UD-H(C)(10)-1/2021-SFC-15750-816 (Rs. 4351586/-) Dt. 16.07.2021	1000000	4589471	5589471	1992746	3596725	UC Sent Vide Letter No.NP-Nerwa(SFC)/2021-269 Dated 23.12.2021 Rs.1000000/-
		UD-H(C)(10)-1/2021-SFC- (Rs. 237885/-) Dt. 4.01.2022						
3	COVID-19	UD-H(C)(17)-3/2021-COVID-19 FUBDS-11747-11810 (Rs. 80000/-) Date:-24.05.2021	0	116000	116000	36000	80000	UC Sent Vide Letter No.NP-Nerwa(SFC)/2021-269 Dated 23.12.2021 Rs.36000/-
		UD-H(C)(17)-3/2021-COVID-19 FUBDS-11811-11874 (Rs. 36000/-) Date:-24.05.2021						
4	Park	13.05.2021	0	1000000	1000000	0	1000000	N/A
5	ULB Road	UD-H(F)-Engg.Cell-ULB's Road-loose-22516-89 (Rs. 1473252/-) dates:-24.02.2022	0	1473252	1473252	0	1473252	N/A
8	PMAY	UD-H(F)(20-3/2019-PMAY-HFA-II loose-4091-4152 (2000000) dt. 11.03.2022	0	2000000	2000000	0	2000000	N/A
Total=			3891034	11776700	15667734	2028746	13638988	


 20 10 2022

57

नगर परिषद् नेरवा- अनुदान आय-व्यय विवरणी

2022-23 Income Expenditure Statement								
Sr. NO.	Head	Section No./Date	Opening Balance	Receipt	Total	Expenditure	Balance	UC Send
1	CFC	UD-H(C)(10)-1/2020-7920-88 (Rs. 799863/-) Dated:- 11.04.2022	5489011	4890297	10379308	501226	9878082	N/A
		UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-28110-28179 (Rs.799863/-) Dated:-31.08.2022						
		UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-28040-28109 (Rs.1199795/-) Dated:-31.08.2022						
		UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-43197-258 (Rs.3734/-) Dated:-14.11.2022						
		UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-42251-42320 (Rs.2645/-) Dated:-14.11.2022						
		UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-60500-622 (Rs830627/-) Dated:-2.03.2023						
		Amount Returned from Bank- 7829						
2	SFC	UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-60623-85 (Rs1245941/-) Dated:-2.03.2023	3596725	6355971	9952696	2750438	7202258	N/A
		UD-H(C)(10)-1/2022-SFC Awards-25021-25084 (Rs. 5355971/-) Dt. 2.08.2022						
3	COVID-19	UD-H(C)(10)-1/2021-SFC 41771-75 (Rs. 1000000/-) Dt. 22.10.22	80000	0	80000	0	80000	N/A
4	Park	-	1000000	0	1000000	0	1000000	N/A
5	ULB Road	-	1473252	0	1473252	0	1473252	N/A
6	PMAY	UD-H(F)(2)-3/2019-PMAY-HFA-II loose-9565-9602 (1000000) dt. 11.4.2022	2000000	1304900	3304900	3275000	29900	N/A
		UD-H(F)(20-3/2019-PMAY-HFA-II loose-74860-7548 (4900) dt. 13.07.2022						
		UD-H(F)(20-3/2019-PMAY-HFA-II loose-42335-42395 (300000) dt. 15.11.2022						
7	Street Light	UD-H(F) -MLA Priority-Engg.-Cell-VOL-III-39999-40004 Dt-6.10.2022Rs,3077945/-	0	3077945	3077945	0	3077945	N/A
8	MLA Grant through BDO	N/A	0	200000	200000	0	200000	N/A
		Total	13813524	15829113	29642637	6526664	22941437	

Chie e.
नगर पंचायत
नरवा नगर

58


(57)

4R2142 - 'J'

Tower Fee Statement NP Nerwa 11/2020 to 03/23


Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Closing Balance
	1	2	3	4	5
2020-21	0	0	0	0	0
2021-22	0	0	0	0	0
2022-23	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Note:- There is no any tower installed in Nagar Panchayat Area Nerwa , hance information treated nil.


Secretary,
Nagar Panchayat ,
Nerwa.
नगर पंचायत
नेरवा

59

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम, पद तथा वेतनमान	यात्रा की दिनांक व अवधि	यात्रा का विवरण	दिया गया यात्रा भत्ता (₹)	यात्रा भत्ता का अपेक्षित भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	श्री राजिंदर झारटा, वरिष्ठ सहायक (10300-34800+4400 ग्रेड पे)	16/04/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		17/04/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		19/04/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		20/04/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		26/04/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		27/04/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		03/05/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		04/05/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		10/05/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		11/05/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		17/05/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		18/05/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		21/05/2021 (प्रातः 09:15 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
2	श्री राजिंदर झारटा, वरिष्ठ सहायक (10300-34800+4400 ग्रेड पे)	05/06/2021 (प्रातः 08:30 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		07/06/2021 (प्रातः 08:30 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		08/06/2021 (प्रातः 08:30 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		11/06/2021 (प्रातः 08:30 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		17/06/2021 (प्रातः 08:30 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		18/06/2021 (प्रातः 08:30 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61
		21/06/2021 (प्रातः 08:30 से साय: 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	112	72 का 70% = 51	61



		21/01/2022 (प्रातः 09:15 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		28/01/2022 (प्रातः 09:15 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		29/01/2022 (प्रातः 09:15 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		04/02/2022 (प्रातः 09:15 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		05/02/2022 (प्रातः 09:15 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		10/02/2022 (प्रातः 09:15 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		14/02/2022 (प्रातः 08:30 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		17/02/2022 (प्रातः 08:30 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		18/02/2022 (प्रातः 08:30 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		23/02/2022 (प्रातः 09:15 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		24/02/2022 (प्रातः 09:15 से सायः 06:30)	नगर पंचायत चौपाल से नगर पंचायत नेरवा	91	60 का 70%= 42	49	
		कुमारी इशु मेहता, कनिष्ठ अभियंता को किया गया अधिक भुगतान					1764
		यात्रा भत्ते के रूप में कुल अधिक अनुचित भुगतान (4819+1764)					6583

[Signature]
 Section Officer
 State Audit Department,
 Shimla-9, H.P.